



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2—मई 8, 2009 (वैशाख 12, 1931)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2—MAY 8, 2009 (VAISAKHA 12, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. 181/1/2008--राष्ट्रपति, श्री के. एफ. विल्फ्रेड को दिनांक 03 मार्च, 2009 से भारत निर्वाचन आयोग में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के साथ, वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आर. कार, अवर सचिव

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भूतपूर्व सदस्य-सचिव श्री यू. शरच्चंद्रन, जिला न्यायाधीश को प्रतिनियुक्ति आधार पर भारत सरकार द्वारा विहित सामान्य निबंधनों और शर्तों पर दिनांक 8 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए 22,400-525-24,500/- रु. के वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

एम. ए. खान यूसुफी, संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. ए-60011/113/2000-प्रशा.-III (वि. का.)--केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप धारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा केरल

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. ए-12023/12/1993-प्रशा.-III (वि. का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु होने पर आयकर अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष श्री के. सी. सिंगल दिनांक 14 मार्च, 2009 के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ई. एस. नारायण, अवर सचिव

न्याय विभाग

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 अप्रैल 2009

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मार्च 2009

सं. के.-13014/1/2009-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केवल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, (i) न्यायविद् श्री चंद्रकांत लक्ष्मण पांगारकर, और (ii) न्यायविद् श्री अमजद सैयद को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. टुडक्ले, उप सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2009

सं. के. 13012/5/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री अश्वनी कुमार सिंह, (ii) श्री देवेन्द्र कुमार अरोड़ा, (iii) श्री अनिल कुमार, (iv) श्री दासू राम आजाद, (v) कुमारी नाहीद आरा मूनिस, (vi) श्री ऋतुराज अवस्थी, (vii) श्री राजेश चन्द्र, (viii) श्री श्याम शंकर तिवारी, (ix) श्री योगेन्द्र कुमार संगल, (x) श्री काशीनाथ पाण्डेय, (xi) श्री विरेन्द्र सिंह, (xii) श्री राम अवतार सिंह, (xiii) श्रीमती जयश्री तिवारी, (xiv) श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल, (xv) श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, (xvi) श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, (xvii) श्री अशोक श्रीवास्तव तथा (xviii) श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. टुडक्ले, उप सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2009

सं. के.-13021/3/2008-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री अम्बिकल नारायण गोड़ा और (ii) न्यायविद् श्री लिंगप्पा नारायण स्वामी को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. टुडक्ले, उप सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 अप्रैल 2009

सं. के.-13016/4/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्री वाल्मिकी जे. मेहता तथा (2) श्री नीरज कृष्ण कौल को, उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

भूपिन्दर प्रसाद, अपर सचिव

सं. 14046/157/2002-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा (दानिप्स) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, श्री रजनीश चौधी का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार करती है।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

सं. 14046/06/2009-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली सेवाएं (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी, श्री अशोक कुमार (जन्म तिथि 22.01.1952) दानिप्स में प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी का दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 का स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस स्वीकार करते हुए उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) के तहत 21 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी प्रदान करते हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

दिनांक 27 मार्च 2009

सं. 14016/11/2008-यू.टी.एस.-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियमावली 2003 के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली की पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रु. (पूर्व संशोधित) वेतनमान में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है :-

क्रम	अधिकारी का नाम	रैंज संख्या	जन्म की तारीख
सं.			
1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
1.	कंवर सिंह सादव	डी-1/594	09.08.1951
2.	सुखबीर सिंह	डी-1/436	05.10.1952
3.	गिराज सिंह	डी-1/1006	15.10.1959
4.	वीरेन्द्र सिंह मोणा	डी-1/679	12.08.1958

1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
5.	दर्शन सिंह	डी-1/249	07.06.1949
6.	ओम प्रकाश	डी-1/994	12.05.1955
7.	कृष्ण कुमार	डी-1/10	01.01.1956
8.	संदीप बयाला	डी-1/973	23.11.1967
9.	पृथ्वी सिंह	डी-1/1055	05.05.1950
10.	रमेश सिंह राणा	डी-1/18	08.08.1950
11.	बीर सिंह	डी-1/685	04.10.1949
12.	अशोक कुमार	डी-1/986	28.06.1954
13.	सुरेन्द्र कुमार	डी-1/1061	12.05.1955

2. दानिप्स के प्रविष्टि ग्रेड में ऊपर उल्लिखित तेरह निरीक्षकों की नियुक्ति सीडब्ल्यूपी सं. 4210/2007 जगदीश चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के परिणाम के अध्याधीन होगी।

3. तथापि, उक्त आदेश लागू करने से पहले दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपर्युक्त निरीक्षक सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

दिनांक 31 मार्च 2009

सं. 14046/07/2009-यूटीएस-II--संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली पुलिस सेवाएं (दानिप्स) के प्रविष्टि ग्रेड अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी, श्री चन्द्र मोहन (जन्म तिथि 15.08.1949) दानिप्स में प्रविष्टि ग्रेड अधिकारी का दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 का स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस स्वीकार करते हुए उन्हें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 (1) के तहत 01 अप्रैल, 2009 की पूर्वाह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मंजूरी प्रदान करते हैं।

जे. के. सिंह, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. ए-32014/7/2007-प्रशा.1 (क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग (सीएसएसएस) के श्री टी. ए. बालाकृष्णन (वरीयता सं. 4) और श्री जोसेफ चाको (वरीयता सं. 26), निजी सचिवों, जो कि गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग (सीएसएसएस) के चयन ग्रेड 2003 के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पी.बी.-3 (रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 6,600/-) शामिल किए जाने के अनुसरण में नियमित आधार पर

प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 6.2.2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

सं. 32013/02/2006-प्रशा.1 (खण्ड-V)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-1 अधिकारियों को चयन ग्रेड (उप सचिव) के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियमित आधार पर उप सचिव के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	चयन ग्रेड की पुनिदा सूची का वर्ष	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री बी. के. शर्मा	2006	27.02.2009 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए. एल. वर्मा	2007	20.02.2009 (पूर्वाह्न)
3.	श्री आर. के. शर्मा	2007	01.04.2009 (पूर्वाह्न)
4.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	2007	16.04.2009 (पूर्वाह्न)

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. 12013/17/2007-रा.भा. (का.-1)--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र सिंह को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 9 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से विलय आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धर्म सिंह, अवर सचिव

सं. 12013/17/2007-रा.भा. (का.-1)--राष्ट्रपति, श्री निर्मल कुमार दुबे को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 12 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से आमेलन/प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धर्म सिंह, अवर सचिव

सं. 12013/17/2007-रा.भा. (का.-1)--राष्ट्रपति, श्री हरीश सिंह चौहान को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 23 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से आमेलन/प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) सहर्ष नियुक्त करते हैं।

धर्म सिंह, अवर सचिव

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2009

सं. ए-19011/2/2009-अं.रा.प.--राष्ट्रपति, श्री आर. वैद्यनाथन को अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय

सेवा) के रूप में दिनांक 9 अप्रैल, 2009 के पूर्वान्त से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

का. प्र. मिश्रा, निदेशक

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. 14012/09/2007-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री लोकेश कुमार जातव को दिनांक 06.09.2006 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/03/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री विजय नेहरा	2001	02.09.2003
2.	श्री रूपवंत सिंह	2003	01.09.2005
3.	डॉ. संध्या भुल्लर	2003	01.09.2005
4.	श्री स्वरूप पी.	2003	01.09.2005
5.	श्री एस. पी. खोदाभाई	2003	01.09.2005
6.	श्री राहुल बी. गुप्ता	2004	06.09.2006
7.	सुश्री मनीषा चन्द्रा	2004	06.09.2006
8.	श्री राजेश मांझू	2004	06.09.2006
9.	श्री राजकुमार बेनीवाल	2004	06.09.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2009

सं. 14013/04/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए. जी. एम. यू. टी. संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री जे. पी. राय	1991	22.03.2002
2.	श्रीमती जे. रघुरमन	1991	22.03.2002

1	2	3	4
3.	श्री आर. एम. पिल्लै	1993	22.04.2003
4.	श्री सुयेश प्रकाश	1993	22.04.2003
5.	श्री हगे कोजीन	1993	07.04.2001
6.	श्री हुजर लौलेन	1996	22.05.2003

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/02/2009-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जम्मू तथा कश्मीर राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री संजीव वर्मा	2001	02.09.2003
2.	श्री मन्दीप के. भण्डारी	2001	02.09.2003
3.	श्री सौरभ भगत	2002	02.09.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. 14015/07/2008-अ.भा.से.(I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2008 हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोट रिक्रिटियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 12.12.2008 को तैयार की गई और विनियम 7(2) के अंतर्गत दिनांक 9 अप्रैल, 2009 को अनुमोदित की गई श्री आई. सी. सांगवान (जन्मतिथि : 18.10.1954) के नाम वाली हरियाणा के गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं।

2. वर्ष 2008 की चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारी का शामिल किया जाना एचसीएस (ईएक्सईसी) अधिकारी संगठन द्वारा भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर ओए सं. 589/सीएच/2008 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगा।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/07/2008-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय

प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में हरियाणा की गैर-राज्य सिविल सेवा के सदस्य, श्री आई. सी. सांगवान को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत हरियाणा संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति एचसीएस (ईएक्सईसी) अधिकारी संगठन द्वारा भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर ओए सं. 589/सीएच/2008 के अंतिम परिणाम के अधधीन होगी।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2009

सं 03/पी.बी.-III/2009--राष्ट्रपति भा. वि. से. (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-1 के अधिकारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा को, मंत्रालय के 24 दिसंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. क्यू/सीएडी/584/8/2006 के अनुसार 1 मार्च, 2009 से भा.वि.से. (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तारीख	वर्तमान तैनाती
1.	श्री पी. के. शर्मा	01.03.2009	भारत का राजदूतावास, थिम्पू

2. श्री पी. के. शर्मा ने अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से प्रधान निजी सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी
(पी. बी.- I व III)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं 23/पीए-II/581/15/07--भारतीय विदेश सेवा के 2007 बैच की परिवीक्षार्थी सुश्री नीतू को उनके विवाह के परिणामस्वरूप "नीतू मेहरादा भगोतिया" के नाम से जाना जाएगा।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव
(एफएसपी एंड कैडर)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2009

सं. 13 (फा.सं. 50/127/2008-प्रशा.-1)-- वरिष्ठता कोटे के प्रति वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में श्री राजेश कुमार का नाम शामिल होने के कारण राष्ट्रपति, राजस्व विभाग के वित्त

काडर में वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री राजेश कुमार को 05.02.2009 से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार, श्री राजेश कुमार, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए "परीक्षण" पर रहेंगे।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली के अनुसार श्री राजेश कुमार, अनुभाग अधिकारी की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अनुमोदित नियमित सेवा 01.07.2005 से गिनी जाएगी।

4. उक्त नियुक्ति श्री कैलाश चंदर द्वारा दायर कैलाश चंदर बनाम भारत संघ के बीच न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005 उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित तथा श्री सौराशु सिन्हा द्वारा दायर सौराशु सिन्हा बनाम भारत संघ के मामले सं. ए.1083/2008 एवं एम.ए.सं. 1171/2007, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित, के परिणामों के अधधीन होगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 14 (फा.सं. 50/172/2008-प्रशा.-1)-- वरिष्ठता कोटे के प्रति वर्ष 2005 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में श्री राम नरेश का नाम शामिल होने के कारण राष्ट्रपति, राजस्व विभाग के वित्त काडर में वर्तमान में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में कार्यरत श्री राम नरेश को 05.02.2009 से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार, श्री राम नरेश, अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए "परीक्षण" पर रहेंगे।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली के अनुसार श्री राम नरेश, अनुभाग अधिकारी की अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अनुमोदित नियमित सेवा 01.07.2005 से गिनी जाएगी।

4. उक्त नियुक्ति श्री कैलाश चंदर द्वारा दायर कैलाश चंदर बनाम भारत संघ के बीच न्यायालय मामला सं. 13245-60/2005 उच्च न्यायालय, दिल्ली में लंबित तथा श्री सौराशु सिन्हा द्वारा दायर सौराशु सिन्हा बनाम भारत संघ के मामले सं. ए.1083/2008 एवं एम.ए.सं. 1171/2007, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित, के परिणामों के अधधीन होगी।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. 15 (फा.सं. ए-19011/3/2009-प्रशा.-1)-- भारत के राष्ट्रपति, श्री डी. पी. सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (के.उ.शु. एवं सी.शु. : 83) को दिनांक 26.02.2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000/- रुपये प्रतिमाह ग्रेड वेतन के साथ 37,400-67,000/- रुपये वेतन बैंड-4 के ग्रेड में, राजस्व विभाग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव (पुनरीक्षा याचिका) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 16 (फा.सं. ए-19013/02/2009-प्रशा.-1)-- राष्ट्रपति, श्री आर. सी. शर्मा, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 2002) को दिनांक 23.10.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 17 (फा.सं. ए-19013/01/2009-प्रशा.-1)-- राष्ट्रपति, श्री गुरमीत सिंह, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के.उ.शु. : 2002) को दिनांक 23.10.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2009

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)
स्थापनायें

सं. 13/2009 (फा.सं. ए-38012/01/2009-प्रशा.-II)-- राष्ट्रपति, श्रीमती ईवा एम आर हाईनिवटा (जन्म तिथि 29.06.1954) आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शिलांग का 10.04.2009 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छिक निवृत्ति का नोटिस सी सी एस पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

एस. के. देव, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 08 अप्रैल 2009

सं. ए-12011/2/2009-प्रशा. 2--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.02.2009 के आदेश सं. 4/9/2008-सीएस.-1 (डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री विजय के. शर्मा (सीएसएल सं. 3999), को 15,600--39,100/- रुपये + 7,600/- रुपये (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-3 में 1 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.02.09 के का. जा. सं. 4/9/2008-सीएस.-1 (डी) के तहत परिचालित वर्ष, 2007 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) की प्रवर सूची में उनका नाम सम्मिलित किए जाने के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रपति श्री विजय के. शर्मा (सीएसएल सं. 3999), को 1 जुलाई, 2007 से नियमित

आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

3. केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवर सूची में श्री विजय के. शर्मा की पारस्परिक वरिष्ठता संबंधित चयन सूची में दिए गए क्रमांक के अनुसार होगी, चाहे उनकी उस ग्रेड में नियुक्ति की वास्तविक तिथि जो भी हो।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. ए-34011/01/2009-प्रशा.-2--व्यय विभाग (सीएसएस) के दिनांक 25.03.2009 और 06 अप्रैल, 2009 के का. जा. सं. 12025/6/2005-सीएसएस. के अनुसरण में, राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2005 के परिणाम के आधार पर वित्त मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड "सी" आशुलिपिकों को संशोधित वेतन बैंड-2 में, 9,300--34,800/- रुपये + 4,800/- रुपये (ग्रेड-वेतन) के वेतन बैंड में उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-क एवं ख (सम्मिलित) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तारीख
	श्री/सुश्री	
1.	संगीता श्रीवास्तव	26.03.09 (पूर्वाह्न)
2.	लल्लन प्रसाद मौर्य	25.03.09 (पूर्वाह्न)
3.	जे. फणेन्द्र नाथ	08.04.09 (पूर्वाह्न)

बी. रामकुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल 2009

सं. ए-15012/1/2007-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री बिचित्र नन्द दास, मुख्य प्रबंधक (विधि) भारतीय स्टेट बैंक को 09 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद में पोटासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, उप सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं. ए-32014/1/2008-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, वर्ष 2005 की चयन सूची के लिए अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रुप "बी"/ग्रेड I) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के परिणाम के आधार पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में नीचे लिखे ग्रेड-सी आशुलिपिकों को उनके नामों के आगे लिखी गई तारीख से 9,300--34,800/- रुपये + 4,800/- (ग्रेड वेतन) के

वेतन बैंड-2 में आशुलिपिक ग्रेड "ए" तथा "बी" (आमेलित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	ललित कुमार	25.03.2009
2.	मंजुला जुनेजा	25.03.2009

मीताली घोष, अवर सचिव

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110511, दिनांक 9 अप्रैल 2009

सं. ए-32013/1/2008/युप ए/302-26--राष्ट्रपति, भारतीय सिविल लेखा सेवा के 1974 बैच के अधिकारी श्री सी. आर. सुंदरमूर्ति को 4 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों के होने तक 80,000/- रुपये (नियत) के शीर्ष वेतनमान में महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. दुबे, उप महालेखा नियंत्रक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-12022/6/2005-ई II--अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड-I) सीमित विभागीय परीक्षा, 2005 के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-सीएस-II द्वारा वाणिज्य विभाग के संवर्ग में नामांकन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य विभाग के सीएसएसएस संवर्ग के श्री बी. ए. वैकटचलम (क्रम सं. 18), आशुलिपिक ग्रेड "ग" को वाणिज्य विभाग में आशुलिपिक ग्रेड "क एवं ख" (आमेलित) (पीएस) के रूप में पीबी-2 (9,300—34,800/- रुपये) + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में 16 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया जाता है।

रामलखन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. ए-4/1/2008-एसईजेड--राष्ट्रपति द्वारा श्री मुशाहिद अली खान को दिनांक 19.12.2008 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000—15,200/- रुपये (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में, फाल्गु विशेष आर्थिक जोन, कोलकाता में सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है।

डी. एल. अलवाधी, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. 5/2009 (ए-45013/5/2009-स्था.)--श्री एम. एस. सिंहमार, उप-सचिव, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, वस्त्र मंत्रालय अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं. 6/2009 (ए-19011/10/2007-स्था.)--श्री आर. के. चतुर्वेदी, भा. प्र. से. (मध्य प्रदेश : 87) मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (एमएमटीसी), दिल्ली में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 2 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. 7/2009 (ए-19011/3/2009-स्था.)--राष्ट्रपति, श्रीमती मोनिका एस. गर्ग, आई.ए.एस. (उ. प्र. : 89) को 2 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, रुपये 37,400—67,000/- (पीबी-4) के पे बैंड और 10,000/- रुपये के ग्रेड पे में वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2009

सं. ए-23011/1/2007-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2008 और 31.12.2008 के कार्यालय आदेश सं. 7/5/2008-सीएस-1 और सं. 7/5/2008-सीएस-1 (एस) में दिए गए अनुदेशों के आधार पर राष्ट्रपति श्री एस. सी. सोलंकी जो चयन सूची 1995 के नियमित सहायक हैं और उर्वरक विभाग तथा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के संयुक्त संवर्ग में हैं, को दिनांक 26.03.2009 के पूर्वाह्न से पे-बैंड (पीबी-2), 9,300—34,800/- रुपये और ग्रेड-पे 4,800/- रुपये में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं। उनकी यह नियुक्ति 26.03.2009 से 30.06.2009 की अवधि तथा अथवा डीओपीटी द्वारा पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया द्वारा सीएसएस में नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध कराए जाने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।

2. तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

3. श्री एस. सी. सोलंकी को रसायन और पेट्रोसायन विभाग में तैनात किया जाता है।

एस. आर. घोष, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. 11(36)/2008-स्थापना--केन्द्रीय सचिवालय, आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के अधिकारी और इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वरिष्ठ पीपीएस) के रूप में कार्य कर रहे श्री बी. एस. कौशिक अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2009 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. ए-12015/2/2009-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.03.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2009-सी एस-II के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित वैयक्तिक सहायक श्री यशपाल को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह ख/ग्रेड-1) संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के आधार पर वर्ष 2005 की चयन सूची (परीक्षा कोट) में से 16 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 9,300—34,800/- रुपये (पी बी-2) के वेतन बैंड + 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन में इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड क व ख (विलयित) (निजी सचिव) (समूह ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. ए-12023/01/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री ए. मुरलीधरन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग, नई दिल्ली को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में, रुपये 15,600—39,100/- + 6,600/- (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पी बी-3) में पहली अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से, दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक 'सी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री ए. मुरलीधरन की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में प्रतिनियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) दिनांक 5 जनवरी, 1994 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/12/2008-सीएसएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. (श्रीमती) प्रभा लाल को दिनांक 08.08.2008 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन उप संवर्ग में प्रसूति एवं स्त्री विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

आयुष विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मार्च 2009

सं. ए-11019/13/2005-एच पी सी(पार्ट-1)--संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रपति डॉ. संजय कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक वेतन बैंड-3, 15,600—39,100/- रुपये, ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये में होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीनाक्षी नेगी, निदेशक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2009

सं. 32014/1/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को अनुभाग, अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में वेतन बैंड-2 (9,300—34,800/- ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर कृषि एवं सहकारिता विभाग में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. श्रीमती पुष्पा वासुदेव | 18.12.2008 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्रीमती अनिता नारंग | 19.12.2008 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री. ए. के. मेंदोरता | 17.12.2008 (पूर्वाह्न) |
| 4. श्री एस. डी. सचन | 03.03.2009 (पूर्वाह्न) |

2. यह तदर्थ नियुक्ति इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में समावेशन के लिए या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता दावे के संबंध में कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 15 अप्रैल 2009

सं. ए-12021/4/2005-स्था.-II--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2009 के

कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-सी.एस.-II के अनुसरण में और अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह 'ख'/ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के अंतिम परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 26.03.2009 के पूर्वाह्न से 4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 9,300—34,800/- रुपये के वेतन बैंड (पी. बी.-2) में इस मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) पद पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री बोन्यगारी सुरेन्द्र, निजी सचिव
2. श्री विनोद कुमार, निजी सचिव
3. श्री सुरेन्द्र गोसाई, निजी सचिव

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2009

सं. ए-32014/01/2008-स्थापना-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सीएस-II के तहत श्रीमती पोमी कोहली को दिनांक 24.03.2009 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में पे-बैंड 9,300—34,800/- रुपये + 4,800/- रुपये (ग्रेड पे) में नियमित आधार पर निजी सचिव (समूह-ख राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें वर्ष 2005 के वरिष्ठता कोट के अनुसार निजी सचिव ग्रेड की चयन सूची में शामिल कर लिया गया है।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. ए-12022/5/2005-स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/5/2008-सी.एस.-I, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के नियमित सहायक श्री महाबीर सिंह को वेतन बैंड 9,300—34,800/- रुपये जमा ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये में दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से 30.06.2009 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अनुभाग अधिकारी के रूप में उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने की अथवा अनुभाग अधिकारी के पद पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार मान्य नहीं होगा।

एल. हौकिप, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2009

सं. ए-19011/15/2008-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 के

आदेश सं. 4/32/2008-इओ (एस एम-1) के अनुसरण में श्री विजय एस. मदान, आई ए एस (यूटी : 81) ने 13 जनवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से अपने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 28.03.2012 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. ए-19011/3/1999-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2008-सी एस.I (डी) के जरिए श्री बी. सेनगुप्ता, संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अवर सचिव (सेवानिवृत्त) का नाम वर्ष 2004 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) की चयन ग्रेड सूची (उप सचिव) में शामिल किए जाने के प्रणिमामस्वरूप, राष्ट्रपति श्री बी. सेनगुप्ता को 1 जुलाई, 2004 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

दिनांक 13 मार्च 2009

सं. ए-19011/1/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 17 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/23/2008-इओ (एम एम-1) के अनुसरण में श्रीमती मीना बालीमने शर्मा, आई डी ई एस (92) ने 9 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. ए-32014/1/2009-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 नवम्बर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/12/2007-सी एस-II द्वारा आशुलिपि ग्रेड 'क' तथा 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के वरिष्ठता कोट के तहत वर्ष 2005 की चयन सूची में नाम शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति श्रीमती कुलदीप कौर ठुकराल, एक नियमित आशुलिपि ग्रेड 'ग' को वेतन बैंड-2 : 9,300—34,800/- रुपये + ग्रेड वेतन-4,800/- रुपये में संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित) के सी एस एस एस काडर में नियमित आधार पर आशुलिपि ग्रेड 'क' तथा 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) नियुक्त करती हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-19011/12/2007-स्थापना--श्री ओ. पी. धवन, नियमित प्रधान निजी सचिव का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.01.2009 के

कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2008-सी एस-II के जरिए जारी केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2007 की चयन सूची में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद हेतु शामिल किए जाने के उपरान्त, राष्ट्रपति, श्री ओ. पी. धवन, नियमित प्रधान निजी सचिव को 12,000—16,500/- रुपये (संशोधन पूर्व), पे बैंड-3 : 15,600—39,100/- रुपये + ग्रेड पे-7,600/- रुपये (संशोधित) वेतनमान में संस्कृति मंत्रालय में सी एस एस संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2009

सा. का. नि. संख्या (फा. सं. 8-2/2007/ए एस आई/ए एस)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.01.2009 के आदेश संख्या 4/1/2009-ई ओ (एस एम-1) के सन्दर्भ में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री के. एन. श्रीवास्तव, आई ए एस (कर्नाटक : 78) को 37,400—67,000/- रुपये (पे बैंड-4) + ग्रेड पे-12,000/- रुपये के वेतनमान में 30 जनवरी, 2009 (अपराह्न) से अवर सचिव के पद और वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. एल. मोणा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-12022/6/2006-स्था.--राष्ट्रपति, वर्ष 2003 (एस. क्यू.) की चयन सूची में विस्तारण से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/25/2004-सी.एस.-1(एस), दिनांक 12.01.2009 और इस सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश के अनुसरण में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित मूल सहायकों को इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 9,300—34,800/- रुपये के वेतनमान में 4,800/- रुपये के ग्रेड पे के साथ पे बैंड पीबी-2 में 25.03.2009 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :-

(1) श्रीमती शशि सोनी

(2) श्री आर. महर्षि

2. उपर्युक्त अनुभाग अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षण पर होंगे।

3. इसके अतिरिक्त ये नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर न्यायालय मामला संख्या 13245-60/2005 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर मामला संख्या ओ.ए.-1083/2007 और एम. ए. सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त,

अधिकारियों के लिए स्वीकृत एन.एफ.एस. जैसे वित्तीय लाभ, यदि कोई हों, उपर्युक्त कोर्ट मामलों के निर्णय के अधीन होंगे।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. ईआरबी-1/2009/2/11--श्री पी. राजाशेखरन, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के (आरबीएसएस) सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी को 31.01.2009 के अपराह्न से निदेशक ग्रेड (वेतनमान : 14,300—18,300/- रुपये संशोधन पूर्व) के तदनु रूप संशोधित पे बैंड-4 (37,400—67,000/- रुपये + 8,700/- रुपये ग्रेड पे) में पदोन्नत किया गया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

दिनांक 15 अप्रैल 2009

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी 31.03.2009 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए हैं :

- (1) श्री डी. आर. मेहरा - कार्यपालक निदेशक, स्थापना
- (2) श्री आई. एम. शर्मा - प्रमुख स्टाफ अधिकारी
- (3) श्री कश्मीर सिंह - प्रमुख निजी सचिव
- (4) श्री आर. एस. अग्रवाल - निजी सचिव

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2009/2/5--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (रे.बो.स.से.) के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर ग्रेड-1 (अवर सचिव/उप निदेशक) (वेतन 10,000—15,200/- रुपये संशोधन पूर्व) के रूप में पदोन्नत किया गया है :-

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्व/श्री/सुश्री	
1.	पी. के. रैना	24.03.2009 (पूर्वाह्न)
2.	सुशील कुमार सिंह	27.02.2009 (अपराह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2009/2/5--रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (रे.बो.स.से.) के निम्नलिखित सहायकों (6,500—10,500/- रुपये संशोधन पूर्व) को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर रे.बो.स.से.

के अनुभाग अधिकारियों (वेतन 6,500—10,500/- रुपये संशोधन पूर्व) के रूप में पदोन्नत किया गया है :—

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्व/श्री/सुश्री	
1.	ए. के. मुंजाल	02.02.2009 (पूर्वाह)
2.	पत्रा लाल प्रसाद	24.03.2009 (पूर्वाह)
3.	शिव कुमार शर्मा	08.04.2009 (पूर्वाह)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2005/14/6--रेलवे बोर्ड आशुलिपिकीय सचिवालय सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर आरबीएसएसएस के निजी सचिवों (पे बैंड 9,300—34,800/- + ग्रेड पे 4,800/- रुपये) के रूप में पदोन्नत किया गया है :—

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्व/श्री/सुश्री	
1.	एस. सुजाता	30.03.2009 (पूर्वाह)
2.	दिनेश सूद	02.04.2009 (पूर्वाह)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/2/2005-स्था.--राष्ट्रपति, श्री एच. एन. आशवथ, उप निदेशक इंजीनियरिंग को पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग में निदेशक, (इंजीनियरिंग) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर पदोन्नत करते हुए वेतनमान रुपये 12,000-375-16,500/- (पूर्व-संशोधित) में नियमित आधार पर दिनांक 30 मार्च 2009 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2009 रद्द समझी जाए।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. ए-32014/1/2005-स्था.-I(बी)--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.11.2008 के का.जा. सं.5/12/2007-सीएस.-I के तहत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की 2005 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की आशुलिपिक ग्रेड 'ग', श्रीमती बीना मेहता को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 9,300—34,800/- रुपये के पे बैंड + 4,800/- रुपये की ग्रेड पे में दिनांक 30.03.2009 (पूर्वाह) से नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. ए-19011/5/2008-ई-1--राष्ट्रपति, आई ई एस के जे टी एस अधिकारी श्री चरण पाल सिंह को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 10,000-325-15,200/- रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान और संशोधित पीबी-3 अर्थात् 15,600—39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये के ग्रेड पे में 4 मार्च, 2009 (पूर्वाह) से नियमित आधार पर उप निदेशक (आई ई एस के वरिष्ठ समयमान) के पद पर नियुक्त करती हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रेट याचिका सं. 5953/02 पर अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल 2009

सं. ए-32013/11/2008-स्था.--राष्ट्रपति श्री कौशिक बसु, को पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 01.04.2009 (पूर्वाह) से केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' में अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के पद पर वेतनमान (वेतन बैंड-4) रुपये 37,400—67,000/- + रुपये 8,700/- (ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-32013/6/2008/ई-2--राष्ट्रपति, श्री पी. सी. पन्त को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में से केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा सड़क वर्ग ('क') में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान (वेतन बैंड-3) रुपये 15,600—39,100/- + रुपये 6,600/- के ग्रेड वेतन पर दिनांक 01.04.2009 (पूर्वाह) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
New Delhi-110001, the 13th April 2009

No. 181/1/2008/3034—The President of India is pleased to appoint Shri K. F. Wilfred as Secretary in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 7,600/- in the Election Commission of India with effect from 3rd March, 2009.

S. R. KAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 17th April 2009

No. A-60011/113/2000-Admn.III (LA)—In pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended from time to time, the Central Government hereby appoints Shri U. Sarathchandran, District Judge, formerly Member Secretary, Kerala State Legal Services Authority as Member Secretary in the National Legal Services Authority (NALSA), in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- (Pre-revised) for a period of two years with effect from the forenoon of 8th April, 2009 on deputation basis on usual terms and conditions as prescribed by the Government of India.

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy.

New Delhi, the 17th April 2009

No. A-12023/12/1993-Admn.III (LA)—On attaining the age of superannuation as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri K. C. Singhal, Vice President, Income Tax Appellate Tribunal has retired from service with effect from the afternoon of 14th March, 2009.

E. S. NARAYAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 8th April 2009

No. K-13014/1/2009-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Chandrakant Laxman Pangarkar and (ii) Shri Justice Amjad Ahtesham Sayed, Additional Judges of the Bombay High Court, to be Judges of the Bombay High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 9th April 2009

No. K-13012/5/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Ashwani Kumar Singh, (ii) Shri Devendra Kumar Arora, (iii) Shri Anil Kumar, (iv) Shri Dasu Ram Azad, (v) Kumari Naheed Ara Moonis, (vi) Shri Ritu Raj Awasthi, (vii) Shri Rajesh Chandra, (viii) Shri Shyam Shankar Tiwari, (ix) Shri Yogendra Kumar Sangal, (x) Shri Kashi Nath Pandey, (xi) Shri Virendra Singh, (xii) Shri Ram Autar Singh, (xiii) Smt. Jayashree Tiwari, (xiv) Shri Subhash Chandra Agarwal, (xv) Shri Yogesh Chandra Gupta, (xvi) Shri Shri Kant Tripathi, (xvii) Shri Ashok Srivastava, and (xviii) Shri Virendra Kumar Dixit, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 15th April 2009

No. K-13021/3/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Amblikal Narayana Gowda Venugopala Gowda and (ii) Shri Justice Lingappa Narayana Swamy, Additional Judges of the Karnataka High Court, to be Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 9th April 2009

No. K-13016/4/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Valmiki J. Mehta and (ii) Shri Neeraj Kishan Kaul to be Additional Judges of the Delhi High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

BHUPINDER PRASAD, Addl. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 20th March 2009

No. 14046/157/2002-UTS-II—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rajneesh Chaudhary, Junior Administrative Grade Officer of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Civil Service (DANICS), with immediate effect.

J. K. SINGH, Desk Officer

No. 14046/06/2009-UTS-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) has accepted the notice of voluntary retirement dated 22nd December, 2008 of Shri Ashok Kumar (Date of Birth : 22.01.1952), Entry Grade officer of DANIPS and permitted him to retire voluntarily under rule 48(1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 21st March, 2009.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 27th March 2009

No. 14016/11/2008-UTS-II—Under Clause (c) of Sub-rule (2) of Rule 7, read with Sub-rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Kanwar Singh Yadav	D-I/594	09.08.1951
2.	Sukhbir Singh	D-I/436	05.10.1952
3.	Girraj Singh	D-I/1006	15.10.1959
4.	Virender Singh Meena	D-I/679	12.08.1958
5.	Darshan Singh	D-I/249	07.06.1949
6.	Om Prakash	D-I/994	12.05.1955
7.	Krishan Kumar	D-I/10	01.01.1956
8.	Sandeep Bayala	D-I/973	23.11.1967
9.	Prithivi Singh	D-I/1055	05.05.1950
10.	Ramesh Singh Rana	D-I/18	08.08.1950
11.	Beer Singh	D-I/685	04.10.1949
12.	Ashok Kumar	D-I/986	28.06.1954
13.	Surender Kumar	D-I/1061	12.05.1955

2. The appointment of the abovementioned 13 Inspectors into Entry Grade of DANIPS would be subject to the outcome of CWP No. 4210/2007-Jagdish Chand Versus Union of India and Another.

3. However, before effecting the said order, the Delhi Police may ensure that the aforesaid Inspectors continue to remain free from vigilance angle.

J. K. SINGH, Desk Officer

The 31st March 2009

No. 14046/07/2009-UTS-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs, the Appointing Authority in respect of Entry Grade officers of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) has accepted the notice of voluntary retirement dated 23rd December, 2008 of Shri Chander Mohan (Date of Birth : 15.08.1949), Entry Grade officer of DANIPS and permitted him to retire voluntarily under rule 48(1) of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 1st April, 2009.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 20th April 2009

No. A-32014/7/2007-Ad.I(A)—The President is pleased to appoint Shri T. A. Balakrishnan (Seniority No. 4) and Shri Joseph Chacko (Seniority No. 26), Private Secretaries of CSSS, working as Principal Private Secretaries on ad-hoc basis in the Cadre of Ministry of Home Affairs, to the post of Principal Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 06.02.2009, consequent upon inclusion of their names in the Select List Year 2003 in the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS in PB-3 (Rs. 15600—39100/- + GP Rs. 6600/-).

J. B. SHARMA, Under Secy.

No. 32013/02/2006-Ad.I(Pt.V)—The President is pleased to appoint the following Grade I Officers of the Central Secretariat Service in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on regular basis with effect from the dates indicated against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Select List year for Selection Grade	Date of appointment
1.	Shri V. K. Sharma	2006	27.02.2009 (FN)
2.	Shri M. L. Varma	2007	20.02.2009 (FN)
3.	Shri R. K. Sharma	2007	01.04.2009 (FN)
4.	Shri S. K. Shrivastava	2007	16.04.2009 (FN)

J. B. SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 17th April 2009

No. 12013/17/2007-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri Narendra Singh as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on absorption basis with effect from 9 March, 2009 (F.N.).

DHARM SINGH, Under Secy.

No. 12013/17/2007-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri Nirmal Kumar Dubey as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on absorption/Deputation basis with effect from 12 March, 2009 (F.N.).

DHARM SINGH, Under Secy.

No. 12013/17/2007-OL(Impl.-I)—The President is pleased to appoint Shri Harish Singh Chauhan as Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, on absorption/Deputation basis with effect from 23 March, 2009 (F.N.).

DHARM SINGH, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 16th April 2009

No. A-19011/2/2009-ISC—The President is pleased to appoint Shri R. Vaidyanathan, as Deputy Secretary (Central Secretariat Service), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs on regular basis with effect from the forenoon of 9th April, 2009.

K. P. MISHRA, Dir.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th April 2009

No. 14012/09/2007-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Lokesh Kumar Jatav, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Madhya Pradesh Cadre of 2004 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 06.09.2006.

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/03/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Vijay Nehra	2001	02.09.2003
2.	Shri Roopwant Singh	2003	01.09.2005
3.	Dr. Sandhya Bhullar	2003	01.09.2005
4.	Shri Swaroop P.	2003	01.09.2005
5.	Shri S. P. Khodabhai	2003	01.09.2005
6.	Shri Rahul B. Gupta	2004	06.09.2006
7.	Ms. Manisha Chandra	2004	06.09.2006
8.	Shri Rajesh Manjhu	2004	06.09.2006
9.	Shri Rajkumar Beniwal	2004	06.09.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 15th April 2009

No. 14013/04/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the AGMUT Cadre, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri J. P. Rai	1991	22.03.2002
2.	Smt. J. Raghuraman	1991	22.03.2002
3.	Shri R. M. Pillai	1993	22.04.2003
4.	Shri Suyash Prakash	1993	22.04.2003
5.	Shri Hege Kojeen	1993	07.04.2001
6.	Shri Huzar Lollen	1996	22.05.2003

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/02/2009-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State

Cadre of Jammu & Kashmir, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Sanjeev Verma	2001	02.09.2003
2.	Dr. Mandeep K. Bhandari	2001	02.09.2003
3.	Shri Saurabh Bhagat	2002	02.09.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

New Delhi, the 17th April 2009

No. 14015/07/2008-AIS (I)-A—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service Officers of Haryana containing the name of Sh. I. C. Sangwan (Date of Birth : 18.10.1954) prepared on 12.12.2008 under Regulation 5 and approved on 9th April, 2009 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Haryana under Non State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008.

2. The inclusion of the above officer in the Select List of 2008 will be subject to the final outcome of OA No. 589/CH/2008 filed by HCS (Exec.) Officers Association Vs. UOI & Ors.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/07/2008-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri I. C. Sangwan, a member of the Non-State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on Probation until further orders and to allocate him to the Haryana Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of the above officer to the IAS will be subject to the final outcome of OA No. 589/CH/2008 filed by HCS (Exec.) Officers Association Vs. UOI & Ors.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th March 2009

No. 3/PB-III/2009—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Sharma an Officer of Grade-I of the Stenographers' Cadre of IFS (B) to officiate in the grade of Principal Private Secretary of Stenographers' Cadre of IFS (B) with effect from 1st March 2009 in terms of Ministry's O. M. No. Q/CAD/584/8/2006 dated the 24th December 2008 :—

Name	Date of Promotion	Present Deployment
------	-------------------	--------------------

Recruitment year 2008-09

Sh. P. K. Sharma	01.03.2009	E/I, Thimpu
------------------	------------	-------------

2. Shri P. K. Sharma has assumed charge of the post of Principal Private Secretary with effect from the date shown against his name.

BHASKAR BHATT
Administrative Officer (PB I & III)

New Delhi, the 1st April 2009

No. Q/PA-II/581/15/07—Consequent upon her marriage, Ms. Neetu, Indian Foreign Service (Probationer) of the 2007 Batch, shall hereafter be known as "Neetu Mehrada Bhagotia".

R. GAURAV SHRESTH
Dy. Secy. (FSP & Cadre)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 25th February 2009

No. 13 (F. No. 50/127/2008-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officer Grade for the year 2003 against seniority quota, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, presently working as Section Officer in the Department of Revenue of Finance Cadre, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from 05.02.2009.

2. Shri Rajesh Kumar, Section Officer shall be on "trial" for a period of two years from the date of his appointment in the grade of Section Officer on regular basis as laid down in the CSS Rules.

3. Approved regular service in the Section Officer Grade of Shri Rajesh Kumar, Section Officer will be counted from 01.07.2003 as per CSS Rules.

4. Above appointment shall be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2008 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 14 : (F. No. 50/172/2008-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officer Grade for the year 2005 against seniority quota, the President is pleased to appoint Shri Ram Naresh, presently working as Section Officer (Adhoc) in the Department of Revenue of Finance Cadre, as Section Officer on Regular basis in the Department of Revenue with effect from 05.02.2009.

2. Shri Ram Naresh, Section Officer shall be on "trial" for a period of two years from the date of his appointment in the grade of Section Officer on regular basis as laid down in the CSS Rules.

3. Approved regular service in the Section Officer Grade of Shri Ram Naresh, Section Officer will be counted from 01.07.2005 as per CSS Rules.

4. Above appointment shall be subject to outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2008 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 27th February 2009

No. 15 (F. No. A-19011/3/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri D. P. Singh, IRS (C & CE : 83), as Joint Secretary (Revision Application) under the Department of Revenue, in the Grade of Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/- per month, for a period of five years w.e.f. 26.02.2009 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. SHREEKUMAR, Under Secy.

The 6th March 2009

No. 16 (F. No. A-19013/02/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri R. C. Sharma, IRS (C & CE : 2002) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 23.10.2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 17 (F. No. A-19013/01/2009-Ad. I)—The President is pleased to appoint Shri Gurmeet Singh, IRS (C & CE : 2002) as Senior Technical Officer in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 23.10.2008 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 1st April 2009

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 13 of 2009 (F. No. A-38012/01/2009-Ad.II)—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Mrs. EVA M. R. Hynniewta (DOB : 29.06.1954), Commissioner of Central Excise, Shillong with effect from 10.04.2009 (FN) under Rule 48-A of the CSS (Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB. Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 8th April 2009

No. A-12011/2/2009-Admn.II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 17.02.2009, the President is pleased to appoint Shri Vijay K. Sharma (CSL No. 3999), Under Secretary, Ministry of Defence as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Rs. 7,600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 1st April, 2009 and until further orders.

2. Further, consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2007 circulated vide Department of Personnel & Training O.M. No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 11.02.2009, the President is pleased to appoint Shri Vijay K. Sharma (CSL No. 3999), to Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of 2007.

3. The inter-se-seniority of Shri Vijay K. Sharma in Selection Grade of CSS will follow the serial order given in the respective Select List, irrespective of his actual date of appointment to that Grade.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 20th April 2009

No. A-34011/01/2009-Admn.II—In pursuance of O.M. No. A-12025/6/2005-CAS dated 25.03.2009 and 6th April, 2009 of the Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' of the cadre of Ministry of Finance as Steno Grade A&B (merged) of CSSS in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800 + Rs. 4,800/- (Grade Pay) in the Revised Pay Band PB-2, in the Ministry of Finance, Department of Economic on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Exam,

2005 with effect from the date as indicated against their names :—

Sl. No.	Name	Date
	Shri/Ms.	
1.	Sangeeta Srivastava	26.03.2009 (FN)
2.	Lallan Prasad Maurya	25.03.2009 (FN)
3.	J. Phanendra Nadh	08.04.2009 (FN)

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 1st April 2009

No. A-15012/1/2007-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Bichitra Nanda Dash, Chief Manager (Law), State Bank of India, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Allahabad, for a period of five years with effect from 9th March, 2009 (Forenoon) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 1st April 2009

No. A-32014/1/2008-Ad.I—The President is pleased to appoint the following Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno. Grade A&B (merged) (designed as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Rs. 4,800/- (Grade Pay) on the basis of the result of Section Officers/Stenographers (Gr. B/Gr.I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005 against the Select List year 2005 from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt.	
1.	Lalit Kumar	25.03.2009
2.	Manjula Juneja	25.03.2009

MEETALI GHOSH, Under Secy.

CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS

New Delhi, the 9th April 2009

No. A-32013/1/2008/Gr.A/302-26—The President is pleased to appoint Shri C. R. Sundaramurti, an officer of 1974 batch

of Indian Civil Accounts Service, as Controller General of Accounts, Ministry of Finance, D/o Expenditure in the apex scale of Rs. 80,000/- (Fixed) with effect from the forenoon of 4th April, 2009 and until further orders.

S. S. DUBEY, Dy. Controller Genl. of Accounts

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 8th April 2009

No. A-12022/6/05-E.II—Consequent upon his nomination to the cadre of the Department of Commerce by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009 based on the Section Officer/Stenographers (Gr. B/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005, the President is pleased to appoint Shri V. A. Venkata Chalam (Rank No. 18), Steno. Grade 'C' of CSSS cadre of the Department of Commerce, as Steno. Grade 'A&B' (merged) (PS) in the Department of Commerce in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of the 16th March, 2009.

RAM LAKHAN, Under Secy.

New Delhi, the 9th April 2009

No. A-4/1/2008-SEZ—The President is pleased to appoint Shri Mushahid Ali Khan as Assistant Commissioner of Customs in Falta Special Economic Zone, Kolkata in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- (pre-revised) on deputation basis for a period of three years w.e.f. 19.12.2008 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

D. L. ALWADHI, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st March 2009

No. 5/2009 (A-45013/5/2009-Estt.)—Shri M. S. Sheemar, Deputy Secretary of CSS Ministry of Textiles retired from Government Service, on his attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st March, 2009.

BALBIR SINGH, Under Secy.

The 1st April 2009

No. 6/2009 (F. No. A-19011/10/2007-Estt.)—Shri R. K. Chatruvedi, IAS (MP : 87), will stand relieved of the post of Joint Secretary, Ministry of Textiles, with effect from the forenoon of 2nd April, 2009, consequent on his appointment as Chief Vigilance Officer in the Mineral and Metal Trading Corporation (MMTC), Delhi.

BALBIR SINGH, Under Secy.

The 2nd April 2009

No. 7/2009 (A-19011/3/2009-Estt.)—The President is pleased to appoint Smt. Monika S. Garg, IAS (UP : 89), as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, in the Pay Band of Rs. 37,400–67,000/- (PB-4) and Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of 5 years with effect from the forenoon of 2nd April, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 27th March 2009

No. A-23011/1/2007-HR-II.—In terms of instruction issued by the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 7/5/2008-CS.I and No. 7/5/2008-CS.I(S), dated 14-08-2008 and 31-12-2008 respectively, the President is pleased to appoint Shri S. C. Solanki, a regular Assistant belonging to Select List-1995 and borne on the combined cadre of the Department of Fertilizers and Department of Chemicals and Petrochemicals as Section Officer of Central Secretariat Service on purely ad-hoc basis in the Pay Band (PB-2)—Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. the forenoon of 26.03.2009 for a period upto 30.06.2009 or till regular Section Officers of CSS are made available by the DoPT through normal channel of promotion, whichever is earlier.

2. This ad-hoc promotion shall not confirm any right to continue in the Grade indefinitely or inclusion in the Select List for the regular appointment or to claim seniority in the Section Officer Grade.

3. Shri S. C. Solanki is posted in the Department of Chemicals & Petrochemicals.

S. R. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 2nd April 2009

No. 11(36)/2008-Estt.—Shri B. S. Kaushik an officer of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) and working as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) in the Ministry of Steel has superannuated from Govt. Service on 31.03.2009 (A/N).

G VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 6th April 2009

No. A-12015/2/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Yash Pal, Regular Personnel Assistant of CSSS Cadre in the

Department of Consumer Affairs as Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) (Private Secretary) (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre of this Department against the select list year, 2005 (Examination Quota) on the basis of Section Officer/Stenographers (Gr. B/Gr.I) combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005 held by the Union Public Service Commission in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 16th March, 2009 and until further orders,

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 17th April 2009

No. A-12023/01/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. A. Muralidharan, Senior Research Officer, Planning Commission, New Delhi as Scientist 'C' in the Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) on deputation basis with effect from the forenoon of 1st April, 2009 for a period of two years or till further orders, whichever is earlier.

2. The deputation of Sh. A. Muralidharan to the Department of Scientific & Industrial Research will be regulated in accordance with the instructions of the Department of Personnel & Training contained in OM No. 2.29/91-Estt.(Pay.II) dated 5th January 1994, as amended from time to time.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-the 17th April 2009

No. A-12025/12/2008-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Prabha Lal to the post of Assistant Professor of Obst. & Gynae. in the Teaching Sub-Cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 08.08.2008 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYUSH

New Delhi-110001, the 26th March 2009

No. A.11019/13/2005-HPC(Pt-I).—Consequent upon the recommendation of the Union Public Service Commission. The President is pleased to appoint Dr. Sanjay Kumar Sharma as Scientific Officer (Chemistry) in Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 5,400/- with immediate effect and until further orders.

MEENAKSHI NEGI, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 24th March 2009

No. 32014/1/2008-E.I.—The President is pleased to appoint the following officers of Assistants' Grade of the CSS, as Section Officers (Group 'B', Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with grade Pay Rs. 4,800/- purely on ad hoc basis in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) with effect from the dates mentioned against each, until further orders :—

1. Smt. Pushpa Vasudeva w.e.f. 18.12.2008 (FN)
2. Smt. Anita Narang w.e.f. 19.12.2008 (FN)
3. Shri A. K. Mendiratta w.e.f. 17.12.2008 (FN)
4. Shri S. D. Sachan w.e.f. 03.03.2009 (FN)

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 15th April 2009

No. A-12021/4/2005-Estt.-II.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Private Secretary (Group 'B' Gazetted) of CSSS Cadre of this Ministry in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 26.03.2009 in pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training's OM No. 5/2/2009-CS.-II dated 16th March 2009 and on the basis of the final results of Section Officers/Stenographers (Gr. B/Gr. D) Limited Departmental Competitive Examination 2005 :—

1. Shri Vontigari Surendra, Private Secretary
2. Shri Vinod Kumar, Private Secretary
3. Shri Surendra Gosain, Private Secretary

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 21st April 2009

No. A-32014/01/2008-E.II.—The President is pleased to appoint Smt. Pomi Kohli, to the post of Private Secretary (Group B Gazetted) on regular basis in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of

24.03.2009 vide DoPT's OM No. 5/12/2007-CS-II dated 05.11.2008. She stands included in the Select List of Private Secretary Grade against Seniority Quota for the year 2005.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 20th April 2009

No. A-12022/5/2005-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O M No. 7/5/2008-CS.I, dated the 31st December, 2008, the President is pleased to appoint Shri Mahabir Singh a regular Assistant of Central Secretariat Clerical Services as Section Officer, on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of 2nd April, 2009 till 30.06.2009 or till regular Section Officers are made available or till further orders, whichever is earlier.

The promotion to the post of Section Officer is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the post of Section Officer.

L. HAOKIP, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 21st January 2009

No. A-19011/15/2008-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Appointment Committee of the Cabinet) Order No. 4/32/2008-EO (SM-I) dated 24th December, 2008, Shri Vijay S. Madan, IAS (UT : 81) has assumed the charge of the post of Joint Secretary in Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 13th January, 2009 for the balance period of his central deputation of five years i.e. upto 28.03.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

VANITA SOOD, Under Secy.

The 16th February 2009

No. A-19011/3/1999-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2004 vide Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 4/4/2008-CS.I (D) dated 7th January, 2009, the President is pleased to appoint Shri B. Sengupta, a regular Under Secretary (Retired) on the Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Culture to Selection Grade (Deputy Secretary) on regular basis w.e.f. 1st July, 2004.

VANITA SOOD, Under Secy.

The 13th March, 2009

No. A-19011/1/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Office Memorandum No. 4/23/2008-EO (MM-I) dated 17th February, 2009, Mrs. Meena Balimane Sharma, IDES (92) has assumed the charge of Deputy Secretary in the Ministry of Culture in the forenoon of 9th March, 2009 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

VANITA SOOD, Under Secy.

The 20th March, 2009

No. A-32014/1/2009-Estt.—Consequent upon inclusion of her name in the Select List for the year 2005 against Seniority Quota of Steno Grade 'A&B' (Merged) (designated as Private Secretary) vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/12/2007-CS-II dated 5th November, 2008, the President is pleased to appoint Smt. Kuldeep Kaur Thukral, a regular Stenographer Grade 'C' as Steno Grade 'A&B' (Merged) (designated as Private Secretary) on regular basis in the CSSS cadre of Ministry of Culture (including ASI) in the Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-.

VANITA SOOD, Under Secy.

The 31st March, 2009

No. A-19011/12/2007-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2007 of Central Secretariat Stenographers' Service (CSSS) to the post of Senior Principal Private Secretary on regular basis vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/6/2008-CS-II dated 21st January, 2009, the President is pleased to appoint Shri O. P. Dhawan, a regular PPS as Sr. PPS on regular basis in the CSSS cadre of Ministry of Culture in the Scale of Rs. 12,000—16,500/- (pre-revised), PB-3 : Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- (revised).

VANITA SOOD, Under Secy.

New Delhi, the 31st March 2009

No. (F. No. 8-2/2007/ASU/AS)—On the recommendations of the Appointments Committee of the Cabinet (Department of Personnel & Training with reference to their Order No. 4/1/2009-EO (SM.-I) dated 12th January 2009, the President is pleased to appoint Shri K. N. Srivastava, IAS (KN: 78) to the post of Director General, in the Archaeological

Survey of India, Ministry of Culture in the rank and pay of Additional Secretary in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/-, (PB-4) plus grade pay of Rs. 12,000/- for a period of one year of his assumption of the charge of the said post, w.e.f. 30th January 2009 (AN) or until further orders, whichever is earlier.

B. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 31st March 2009

No. A-12022/6/2006-Estt.—In pursuance of DoPT's OM No. 5/25/2004-CS.I (S) dated 12.01.2009 regarding extension of Select List for the year 2003 (SQ) and on the recommendation for inclusion in the same, the President is pleased to appoint the following substantive Assistants of the CSS cadre of the Ministry of Social Justice & Empowerment to the Section Officers' Grade of Central Secretariat Service Cadre (Group 'B' Gazetted, Ministerial) of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the Pay Band (PB-2) carrying scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 25.03.2009 :

(i) Smt. Shashi Soni

(ii) Shri R. Mahrishi

2. The abovementioned Section Officers will be on trial for a period of two years from the date of their appointment.

3. Further, the appointment as above shall be subject to outcome Court Case No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. OA-1083/2007 and MA No. 1171/2007 filed by Shri Souranshu Sinha Vs. Union of India pending in CAT, Delhi. Further, financial benefits if any, like NFS granted to officials shall be subject to the outcome of abovementioned Court Cases.

R. A. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th April 2009

No. ERB-I/2009/2/11—Shri P. Rajasekharan, Selection Grade Officer of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted to Director's Grade (Scale : Rs. 14,300—18,300/- pre-revised) corresponding to the revised Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) with effect from the afternoon of 31.01.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 15th April, 2009

No. ERB-I/2007/10/4—The following Officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.03.2009 :—

Sl. No.	Name	Post
1.	Shri D. R. Mehra	Executive Director Establishment.
2.	Shri I. M. Sharma	Principal Staff Officer.
3.	Shri Kashmir Singh	Principal Private Secretary.
4.	Shri R. S. Aggarwal	Private Secretary.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2009/2/5—The following Section Officer's of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted to Grade-I (Under Secretary/Deputy Director) (Scale : Rs. 10,000—15,200/- pre-revised) on adhoc basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Sh./Ms.	
1.	P. K. Raina	24.03.2009 (FN)
2.	Sushil Kumar Singh	27.02.2009 (AN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2009/2/5—The following Assistants (Scale Rs. 6,500—10,500/- pre-revised) of Railway Board Secretariat Service (RBSS) have been promoted as Section Officers of RBSS (Scale Rs. 6,500—10,500/- pre-revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Sh./Ms.	
1.	A. K. Munjal	02.02.2009 (FN)
2.	Panna Lal Prasad	24.03.2009 (FN)
3.	Shiv Kumar Sharma	08.04.2009 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy./
Railway Board

No. ERB-I/2005/14/6—The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) have been promoted as Private Secretaries of RBSSS

(Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) on regular basis with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Sh./Ms.	
1.	S. Sujatha	30.03.2009 (FN)
2.	Dinesh Sood	02.04.2009 (FN)

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 8th April 2009

No. A-12025/2/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri H. N. Aswath, a regular Deputy Director (Engineering) as Director (Engineering) (General Central Service, Group 'A' Gazetted, non-ministerial) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- (pre-revised) in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Shipping through promotion on regular basis with effect from 30th March, 2009.

2. The Notification of even No. dated 31st March, 2009 may be treated as cancelled.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ROAD, TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 2nd April 2009

No. A-32014/1/2005-E.I (B)—Consequent on inclusion of her name in the Select List of 2005 of Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/12/2007-CS.-II dated 05.11.2008, the President is pleased to appoint Smt. Veena Mehta, Steno Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on regular basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 30.03.2009 (FN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 6th April, 2009

No. A-19011/5/2008-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Charan Pal Singh, a JTS officer of IES as Deputy Director (Senior Time Scale of IES) in the pre-

revised pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- and revised PB-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. 4th March, 2009 (FN) on regular basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways.

The above appointment will be subject to the final outcome of the Civil Writ Petition No. 5953/02 pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 20th April 2009

No. A-32013/11/2008-E-II—The President is pleased to appoint Shri Kaushik Basu to the post of Superintending Engineer (Mechanical) of Central Engineering Services

(Roads) Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways in the pay scale (Pay Band-4) Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- on regular basis w.e.f. 01.04.2009.

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-32013/6/2008-E-II—The President is pleased to appoint Shri P. C. Pant to the post of Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service Roads (Group 'A') in the Department of Road Transport & Highways in the Pay Scale of (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- on regular basis w.e.f. 01.04.2009.

D. R. SHARMA, Under Secy.